# **FINANCIAL EXPRESS**

#### KALPATARU ENGINEERING LIMITED CIN: L27104WB1980PLC033133 Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani Poddar Court, Gate No. 4, 4th Floor, Room No. 4 Kolkata-700001 Email ID: kalpataruenggltd@gmail.com NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- The notice is hereby given that :
- . The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 18 Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No.4, 4th Floor, Room No.4, Kolkata-700001 on Tuesday, 24th September, 2024 at 03:00 P.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
- 2. Electronics Copies of the Notice of AGM and 43rd Annual Report for 2023-24 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website- http:// kalpataruengineering.co.in. The dispatch of Notice of AGM will be completed by 02nd September, 2024.
- 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd August, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
- The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means:
- The remote e-voting shall commence on Saturday, 21th September, 2024 at 09:00 A.M. IST
- iii. The remote e-voting shall end on Monday, 23th September, 2024 at 5:00 P.M. IST
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at iv. the AGM is Tuesday, 17th September, 2024.
- Any person, who acquire shares of the Company and become member of v. Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e., Tuesday, 17th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote:
- Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members , the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
- The Notice of AGM is available on the Company's website- http:// vii. kalpataruengineering.co.in and
- viii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above-mentioned email ID or the Registered Office address.

#### BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 18th September, 2024 to Tuesday, 24th September, 2024 (both days inclusive). 

For	Kalpataru	Engineering	L	t

		Sd/-
		Sailen Roy
	Place: Kolkata	Managing Director
5	Date: 02nd September, 2024	DIN No. 09673558

# **BFL ASSET FINVEST LIMITED**

Regd. Office : 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur 302006 • Ph.: 9214018877 E-mail : bfldevelopers@gmail.com • Website : www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

### NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

NOTICE IS HEREBY given that 29th Annual General Meeting ("AGM") of the members of BFI Asset Finvest Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated Friday, August 09, 2024 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and as per General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and earlier circulars issued in this regards from time to time by The Ministry of Corporate Affairs, (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Master Circular No. SEBI/H0/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with Circular No. SEBI/H0/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "SEBI Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

The electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent to all the members on Monday, September 02, 2024 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispended in accordance with the aforementioned MCA Circulars and SEBI Circulars.

Pursuant to Section 91 of the Act and regulation 42 of Listing Regulations, Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 29th AGM of the Company to be held on Thursday, September 26, 2024 through VC/OAVM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility during AGM to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

- (a) The remote e-voting period shall start at 09:00 A.M. (IST) on Sunday, September 22. 2024 and shall end at 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 25, 2024. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 25, 2024. The same will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure / instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- (c) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- (d) Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- (e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2023-24 is available on the Company's website www.bflfin.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com
- (g) Any query(ies)(grievance(s) pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (1800 22 55 33), CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

#### HAMILTON POLES MANUFACTURING CO. LTD CIN: L28991WB1981PLC033462 Regd. Off.: 7A, BROJA DULAL STREET, KOLKATA-700006 Website: www.hamiltonpoles.in; E-mail: hamiltonpoles@rediffmail.com

#### NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The notice is hereby given that :

- The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 7A, Broja Dulal Street, Kolkata-700006 on Tuesday, 24th September, 2024 at 12:30 PM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
- 2. Electronics Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2023-24 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The dispatch of Notice of AGM will be completed by 2nd September, 2024.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 17th September, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
- The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means:
- The remote e-voting shall commence on Saturday, 21th September, 2024 at 09:00 A.M. IST
- iii. The remote e-voting shall end on Monday, 23rd September, 2024 at 5:00 P.M. IST
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, 17th September, 2024.
- Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e., Tuesday, 17th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper; vii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above-mentioned email ID or the Registered Office address.

## BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 18th September, 2024 to Tuesday, 24th September, 2024 (both days inclusive).

For Hamilton Po	oles Manufacturing Co Ltd
	Sd/-

	Shilpi Agarwal
Place: Kolkata	Company Secretary
Date: 2nd September, 2024	M no: A40917



#### SOUTHERN MAGNESIUM AND CHEMICALS LIMITED CIN: L27109TG1985PLC005303 Regd. Off: Deccan Chambers, 5<sup>th</sup> Floor, 6-3-666/B, Somajiguda, Hyderabad - 500082.

## **NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC) and Other Audio-Video Means (VC/ OAVM) facility, in accordance with General Circular No. 14/2020 dated 08.04.2020, General Circular No. 17/2020 dated 13.04.2020, General Circular No. 22/2020 dated 15.06.2020, General Circular No. 33/2020 dated 28.09.2020. General Circular No. 39/2020 dated 31.12.2020. General Circular No. 10/2021 dated 23.06.2021, General Circular No. 20/2021 dated 08.12.2021, General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022, General Circular No. 09/2023 dated 25:09:2023 read with Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62. SEBI/H0/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/H0/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2023-24 including the financial statements for the year ended March 31, 2024 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with MCA Circular and SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC/OVAM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.southernmagnesium.com, CDSL's website www.evotingindia.com and website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com.

In this regard, the Members whose email ids for all communications are not registered/ updated with their Depository are hereby requested to register/ update their email ids with respective Depository or with Aarthi Consultants Private Limited (the Company's RTA) by sending a request to the Company's RTA on the email address at info@aarthiconsultants.com with subject line (unit- Southern Magnesium and Chemicals Limited):

- Folio No./ Client ID and DP-ID;
- Name of shareholder:

Place: Hyderabad


Date: 02.09.2024

- In case shares are held in Physical form- Scan Copy of Share Certificate;
- Self-attested scanned copy of the PAN card; and
- Self-attested scanned copy of AADHAR Card

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for purpose of the 38th AGM. By order of the Board of Directors

For Southern Magnesium and Chemicals Limited

Sd/-N. Rajender Prasad **Jt. Managing Director & CFO** (DIN: 00145659)



#### Reg. Office:T-11 Grand Plaza, Paltan Bazar, G S Road, Guwahati, Assam 781 008.Assam. Corp Office: D/ 6, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018. Cont: 022 62211000 | Fax: 24938162

CIN: L24229AS1973PLC001446, Website: www.amines.com E-mail :legal@amines.com

NOTICE REGARDING 49<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH TWO WAY VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Amines & Plasticizers Limited ('the Company') will be held on Friday, 27th September, 2024 at 4:00 p.m.(IST) through Two Way Video Conferencing("VC") / Other Audio - Visua Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with general circular dated September 25, 2023 and other applicable circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular dated October 07, 2023 and other relevant circular issued by SEBI in this regard to transact, the business set out in the Notice of the AGM through Two way VC/OAVM.

n compliances with the aforesaid circulars, the Annual Report for the Financial Year 2023 24, will be sent only to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), unless any member has requested for the physical copy of the same.

The electronic copy of Annual Report 2023-24 of the Company inter-alia containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM will also be available on the Company's website at www.amines.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent. Link Intime India Private Limited ("RTA"), at https://instavote.linkintime.co.in

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The detailed instruction with respect to such participation will be provided in the AGM Notice Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of the of guorum in terms of section 103 of the Companies Act, 2013. Members can also view the live webcast of the meeting to be provided by the RTA at https://instameet.linkintime.co.in

#### Manner of registering of Email addresses and mandate of receiving Dividend electronically, if declared in the AGM:

Members with Physical Shareholding: : By submitting Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3 or SH-13 duly completed in all respect along with supporting documents to our RTA i.e. Link Intime India Private Limited (Unit: Amines & Plasticizers Limited) at C-101, Embassy 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai, and;

Members with Demat Holding: With their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s)

TDS on Dividend In accordance with the prevailing provisions of the Finance Act, 2020 dividend income is taxable in the hands of shareholders effective April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to the Members at the prescribed rates. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholders and the documents submitted by them and accepted by the Company. An intimation w.r.t. TDS will be sent to the members by way of email along with email com munication for dispatch of Annual Report for FY 2023-24.

Book Closure and Record Date : The Register of Members and the Share Transfe Books of the Company will remain closed from Friday, September 13, 2024 to Friday September 27, 2024 both days inclusive for the purpose of AGM. The Record Date for the purpose of payment of dividend for FY 2023-24 is September 13, 2024. The dividend on Equity Shares, if declared at the AGM, will be paid on or before October 26,2024 to those Members or their mandates : (a) whose name appears at the end of the business hours on September 13, 2024 in the list of Beneficial owners to be furnished by Depositories in respect of the shares held in demat form; and (b) to all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company as of the close of business hours on September 13, 2024.

Voting Information: Members will have an opportunity to cast their votes carefully on the businesses as may be set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through Insta MEET.

Remote e-voting start date and time Tuesday, 24th September, 2024 at 9.00 a.m. (IST) Remote e-voting end date and time Thursday, 26th September, 2024 at 5.00 p.m. (IST)

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the evoting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM. Any iae a Mombor of the Ca

W. VEL	For BFL Asset Finvest Limited
	Sdj
Place : Jaipur	Mahendra Kumar Baid
Date : 2 September, 2024	(Managing Director) (DIN: 00009828)

SG FINSERVE LIMITED 06 Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Identity Number: L64990DL1994PLC057941 SG FINGERVE Tel.: 91-11-22373437 Website: www.sgfinserve.com, email: compliance@sgfinserve.com

### NOTICE OF 30" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

This is in continuation to our earlier communication given on August 30, 2024, whereby Members of SG Finserve Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ['SEBI (LODR Regulations") read with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circulars No. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022 10/2022, 09/2023 dated April 8, 2020 April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dates May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board o India (SEBI Circulars), it was decided to convene the 30th Annual General Meeting ("AGM") o the Company on Tuesday, September 24, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 30" AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

The process of sending the Notice of 30" AGM and Integrated Annual Report of the Compan for the Financial Year ended March 31, 2024 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on Sunday, September 1, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depositor Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also available on Company's website (www.sgfinserve.com), Stock Exchange's websites (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limiter ("CDSL") (www.evotingindia.com). The physical copy of the notice along with Integrated Annual Report shall be made available to the Member(s) who may request the same

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companie (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR Regulations, Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Compan Secretaries of India (SS-2) and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by CDSL on all resolutions set forth in the Notice of the 30" AGM.

The remote e-voting shall commence on Saturday, September 21, 2024 (10.00 A.M.) and shall end on Monday, September 23, 2024 (5.00 P.M.). During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday September 17, 2024 ("Cut-off date") may cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting.

#### All the members are informed that:

The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;

A person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;

Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 30" AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of the 30" AGM or sending a request to helpdesk evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing Use ID and password to cast their vote: and

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDS after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall no be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be (made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register o members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

0 (A Government of India Enterprise) Khanij Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028. NMDC Corporate Identity Number (CIN) : L13100TG1958GOI001674

## Notice of 66<sup>th</sup> Annual General Meeting and e-voting information

Notice is hereby given that the 66" Annual General Meeting (AGM) of NMDC Limited (the 'Company') will be held on Tuesday, 24th September, 2024 at 11:30 A.M. IST through video conferencing (VC)/other audio-visual means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, from time to time, the Notice of 66th AGM and Annual Report containing the financial statements for FY 2023-24, Auditors' Report thereon, Board's Report and other documents, have been sent through e-mails on 31st August 2024, to all the Members, whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant (DP). The said documents are also available on the Company's website i.e. www.nmdc.co.in, websites of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Further, the Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members of the Company to attend the said AGM through VC/OAVM and to cast votes electronically, in respect of the businesses to be transacted at 66th AGM of the Company. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-off date i.e. Tuesday, 17" September, 2024 may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. The remote e-voting platform will be open for voting from Saturday, 21" September, 2024 (09:00 AM) to Monday, 23rd September, 2023 (05:00 PM). Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those members, who do not cast their vote on the resolutions through remote e-voting during the above period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Members who have not registered their email address or who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut-Off date, are requested to register the same with the Depository through their Depository Participant(s) in case the shares are held in electronic form and in case of shares held in physical form, with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Aarthi Consultants Pvt. Ltd., Email: ims@nmdc.co.in, info@aarthiconsultants.com. Any person whose e-mail ID is not registered with the Company/DP, may obtain the user Id and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL / Remote e-voting, he/she can use his/her existing User id and Password for casting the vote. Further, members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of NSDL website i.e. www.evoting.nsdl.com or refer to the instructions as mentioned in the Notice of 66th AGM or call on toll free nos. 1800-1020-990 or 1800-22-44-30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

## **Book Closure:**

The Board of Directors of the Company in its Meeting held on 27th May, 2024 had recommended Final Dividend for the financial year 2023-24 @ Rs. 1.50 per share, subject to the approval of shareholders in the ensuing AGM.

Notice is given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 18th September 2024 to 24th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of ensuing 66th AGM of the Company and for determining entitlement of shareholders for payment of said final dividend. Accordingly, the said dividend will be paid within prescribed time, to the shareholders holding shares as at the close of the Record date i.e. 17th September, 2024.

Members of APL Apollo Tubes Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEB (LODR) Regulations" read with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circulars No. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively (MCA Circulars) and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars), it was decided to convene the 39" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Thursday, September 26, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 39th AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

The process of sending the Notice of 39" AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on Sunday, September 1, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also available on Company's website (www.aplapollo.com), Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com). The physical copy of the notice along with Integrated Annual Report shall be made available to the Member(s) who may request the same.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by CDSL on all resolutions set forth in the Notice of the 39" AGM.

The remote e-voting shall commence on Monday, September 23, 2024 (10.00 A.M.) and shall end on Wednesday, September 25, 2024 (5.00 P.M.). During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e Thursday, September 19, 2024 ("Cut-off date") may cast their votes electronically Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting.

The Dividend for the financial year ended March 31, 2024 of ₹5.50 per Equity Share having nominal value of ₹2/- each, as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be credited/despatched within 30 days of the date of AGM after deduction of tax as per the provisions of Income-tax Act, 1961, to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company on Thursday, September 19, 2024 or to their mandates. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, dividend wil be credited/despatched on the basis of details of beneficial ownership as on September 19, 2024 to be received from the depositories for this purpose.

All the members are informed that:

- The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
- A person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information purposes only;
- Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 39" AGM and holding shares as on the Cutoff date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of the 39" AGM or sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote; and
- Members may note that; a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

If you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

the dispatch of th	IS AGM N	votice a	and hold	s shar	res as on the	Cut	-off Date i.e	. September
20, 2024, may	obtain	the l	ogin id	and	password	by	sending a	request at
enotices@linkint	ime.co.in	/insta	.vote@	linkint	ime.co.in or	call c	on 022 - 022	-49186060.

#### Manner of casting vote(s) through e - voting:

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting")
- The manner of voting remotely ("remote e-voting") and the login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company /DP, may go through the instructions given in the Notes to Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.amines.comand on the website of RTA at https://instavote.linkintime.co.in
- ii. The facility for e-voting will also be made available at the AGM ("Insta MEET") and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta MEET.

Dividend : In accordance with the SEBI Circular, dividends, in respect of physical folios wherein KYC details are not updated before the record date, will be held back by the Company and the dividend will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio. However, company will follow any mandate in case otherwise issued by the SEBI in this regard

KYC : SEBI has mandate the submission of PAN, KYC details and nomination by holders of physical securities vide its circular dtd. 17.11.2023 and its master circular dtd. 17.05.2023. Members are requested to submit their PAN, KYC and nomination details to the Company's RTA. The forms for the same are mentioned in the notice and are available at the Company's website at www.amines.com and at RTA website www.linkintime.co.in

In case of any query/grievance please refer to Frequently Asked Questions ('FAQs') and nstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in or members may contact Mr. Rajeev Ranjan, AVP, Contact No.: 022-49186060- e-voting, LINK INTIME at enotices@linkintime.co.in

For Amines & Plasticizers Limited Sd/

**Omkar Mhamunkar** Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer Date: September 03, 2024 Membership No.: ACS 26645

Physical Holding	Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned oopy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card, self-attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address by email to Company: compliance@sgfinserve.com or to RTA: compliances@skylinerta.com.
Demat Holding	Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address to Company: <u>compliance@sgfinserve.com</u> or to RTA: <u>compliances@skylinerta.com</u>
rocess in a The voting ri vaid up equit The result of or before δ	been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting fair and transparent manner. ghts of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the y share capital of the Company as on cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2024. voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM i.e., on teptember 26, 2024 and results so declared along with the consolidated Report will be placed on the Company's website ( <u>www.sgfinserve.com</u> ) and
CDSL's web	isite ( <u>www.evotingindia.com</u> ) and simultaneously communicated to the stock BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> , where the Company's shares are listed.
System, yo available	any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting a may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual at <u>www.evotingindia.com</u> , under help section or write an email to <u>oting@cdslindia.com</u> call toll free No. 18002109911.
letails are n advised by t not updated wescribed fi	iding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC equested to register/update the details in their demat account, as per the process heir Depository Participant. Members holding shares in physical form who have their email or KYC details are requested to register/update the said details in the orm ISR – 1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s Skyline arvices Private Limited. Members are also recommended to complete their

nomination in the prescribed form SH-13. Members can access the relevant forms on the Company Website at https://www.sgfinserve.com/communication-to-shareholders.

	For and on behalf of
	SG Finserve Limited
	(Formerly known as Moongipa Securities Limited)
	Sd/-
	Ritu Nagpal
Date : September 2, 2024	Company Secretary
Place : Delhi	M.No.: A38318

#### licability of TDS on Dividend:

bers may note that the Dividends paid by the company, after 1st Apr , shall be taxable in the hands of members. The company shall therefor quired to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the payment of esaid Final Dividend in order to enable us to determine the appropriat rate as applicable, members are requested to submit Form 15G/15H an te their residential status, PAN, Category as per the Income Tax Act, 196 their Depository Participant(s) or with the Company's R&TA at the email i aarthiconsultants.com. If valid PAN of a member is not available, TDS ired to be deducted @ 20% as per applicable provisions.

## nding AGM through VC / OAVM:

bers will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM igh the NSDL e-Voting system. Members may access by following the s mentioned for "Access to NSDL e-Voting system" in Notes to Notice successful login, with login credentials, Member can see link of OAVM" placed under "Join meeting" menu against Company name bers are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting u. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member logi e the EVEN of Company will be displayed.

## ber Speaker Registration:

bers who would like to express their views/ask questions during the 66t I may register themselves as a speaker and may send their request from September 2024 (9.00 a.m. IST) to 14th September 2024 (5.00 p.m. IST tioning their name, DP ID and Client ID /folio number, email id, mobil berat: cs@nmdc.co.in.

e: Member(s) are advised to claim unpaid/unclaimed dividend amounts f any, in respect of final dividend for FY 2016-17 and thereafter, by sendin a request to the Company's RTA i.e. M/s Aarthi Consultants Pvt. Lto Email: ims@nmdc.co.in , info@aarthiconsultants.com.

company, after 1st April company shall therefore f making the payment of termine the appropriate	Physical Holding	Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder scanned copy of the share certificate (front and back), self attested scanned copy of PAN card, self attested scanned copy of Aadhar Card or any othe document as proof of address by email to Company: <u>investors@aplapollo.com</u> or to RTA: <u>rta@abhipra.com</u> .	
omit Form 15G/15H and the Income Tax Act, 1961 ty's R&TA at the email id r is not available, TDS is	Demat Holding	Please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID o NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self attested scanned copy of Aadhar Card or any othe document as proof of address to Company: <u>investors@aplapollo.com</u> or to RTA: <u>rta@abhipra.com</u> .	
sions. AGM through VC/OAVM	5236), ha	Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 5651: COP No s been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting a fair and transparent manner.	
access by following the rem" in Notes to Notice. mber can see link of ainst Company name. ced under Join Meeting areholder/Member login	The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Thursday September 19, 2024. The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM i.e. on or before September 28, 2024 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website ( <u>www.aplapollo.com</u> ) and CDSL's website ( <u>www.evotingindia.com</u> ) and simultaneously communicated to the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited a <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> respectively, where the Company's shares are listed. If you have any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at <u>www.evotingindia.com</u> , under help section or write an email to belefore a section or write an email to belefore the first of the section or write an email to belefore the section or wri		
uestions during the 66th send their request from per 2024 (5.00 p.m. IST) umber, email id, mobile			
med dividend amounts, d thereafter, by sending Consultants Pvt. Ltd. com.	details an process a who have details in Company nominatio	e requested to register/update the details in their demat account, as per the dvised by their Depository Participant. Members holding shares in physical form not updated their email or KYC details are requested to register/update the said the prescribed form ISR - 1 with Registrar and Share Transfer Agent of the , M/s Abhipra Capital Ltd. Members are also recommended to complete their n in the prescribed form SH-13. Members can access the relevant forms on the new prescribed form SH-13.	
For NMDC Limited Sd/- A.S. Pardha Saradhi	Company	Website at https://aplapollo.com/downloads. For and on behalf of APL Apollo Tubes Limited Sd/-	
Contract on the first of the first state of the first of the local state of the sta			

Date : September 2, 2024





Date: 31" August 2024

Place : Noida

ED & Company Secretary

Membership No. FCS 10808





# जनसता

# 3 सितंबर, 2024

## MEDICAMEN BIOTECH LIMITED Reg. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi, 110019 CIN: L74899DL1993PLC056594 Contact No.: 011-47589500 Website: www.medicamen.com Email: cs@medicamen.com

#### NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND REMOTE E- VOTING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Medicamer Biotech Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visuals Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013) and rules framed thereunde read with General Circular No 20/2020 dated May 05, 2020 and 10/2020, 11/2020 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other relevant circulars issued by MCA in this regard and Circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/ 4 dated January 05; 2023 issued by SEBI read together with other relevant circulars issued by SEBI in this regard and other applicable circulars, to transact the business(es) set out in the Notice of 31st AGM

The notice of the 31st AGM along with the explanatory statement and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent electronically on September 02, 2024 to those member who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent/ Depository Participants and whose names appears in the register of members as on the close of the business hours of August 31, 2024. Physical copies of the aforesaid document are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid MCA Circulars and other applicable circulars.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 2 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEE (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e voting electronically from a placeother than the venue of the AGM) and e-voting at the AGM and the same will be provided by Link in Time India Private Limited ("LIIPL), All the members are hereby informed that

- a) The remote e-voting period shall commence at 09.00 a.m. IST on September 23, 2024 and end at 05.00 p.m. IST on September 25, 2024. The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter
- Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as or cut-off date i.e. September 19, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-votin as well as voting at the AGM.
- c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after sending the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e September 19, 2024, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company 'Link Intime India Private Limited' at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Ph: 011-49411000 email id: (e-voting insta.vote@linkintime.co.in) or Company Secretary for any query. However If the said shareholder is already registered with Link Intime India Private Limited for e-voting, then his existing user id and password can be used for casting the vote. If he has forgotten the password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://instavote.linkintime.co.in/
- Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the close of the working hours of the aforesaid cut-off date and not casting their vote by way of remote e-voting, may caste their vote at AGM through e-voting system.
- e) A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to be changed subsequently or cast again.
- Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently or cast again
- The Notice of AGM and the Annual report is available on the company's website www.medicamen.com, on the LIIPL's websitewww.linkintme.co.in and the website of the stock exchange(s) viz; NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com)
- The Directors have recommended a final dividend of Re. 1.00/- per equity share of Rs. 10/ each of the Company for approval by the shareholders at the AGM
- Pursuant to regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Company has fixed Thursday September 19, 2024 as the Record Date for determining entitlement of members to fina dividend for the financial year ended March 31, 2024. If the final dividend as recommended by the Board of Directors is approved at the AGM, payment of such dividend will be made on or before October 25, 2024 as under:
- To all beneficial owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as of the close of business hours on Thursday, September 19, 2024;
- (ii) To all members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company as of the close of business. hours on Thursday, September 19, 2024.
- Further, Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read elevant rules there under and Reculation 42 of the SERI (Listing Obligations and Dis

## रिट्ज मर्केन्टाइल लिमिटेड पंजी. कार्या.: 1305, 13वां तल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 CIN: L52110DL1985PLC019805

## सदस्यों के लिये सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम सभा के आमंत्रण सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये रिट्ज मर्केन्टाइल लिमिटेड के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक आम सभा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 4.00 बजे अप. में शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जाएगी।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, यथा-संशोधित के नियम 10 के प्रावधानों के अनसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पस्तकें कम्पनी की उक्त एजीएम के लिये 21 सितम्बर, 2024 से 27 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 46 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपने सदस्यों को मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लि., कम्पनी के आरटीए की एक एजेन्सी के रूप में सेवाऐं प्राप्त की हैं।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 24 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 26 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जाएगी

यदि कोई व्यक्ति एजीएम सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा शेयर अर्जित करते हैं तथा 20 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे info@alankit.com पर टोल फ्री नम्बर 1800–113300 पर अलंकित को कॉल कर ईमेल अनुरोध भेजकर यूजर नाम तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही अलंकित ई-वोटिंग में पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

एजीएम में पोल (बैलॅट) पत्र द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सभा में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे सभा में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन एजीएम में पनः मतदान के लिये अधिकत नहीं होंगे।

ई-वोटिंग-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये कृपया सीडीएसएल की वेबसाईट link http://evotingindia.com पर उपलब्ध सहायता तथा एफएक्यू खंड देखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधी पूछताछ अथवा समस्या अधोलिखित को संबोधित की जा सकती है:

अलंकित एसाइन्मेन्ट लि., अलंकित हाइट्स, 1ई/13, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055, फोन नं. 011-4254 1234, 2345 1234, ई-मेलः rta@alankit.com कृत्ते, रिट्ज मर्केन्टाइल लि

हस्ता./

दिनांक

स्थान

गर्वित सिंहवी

पूर्ण-कालिक निदेशक

DIN: 00597757

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 3.9.2024



कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74899DL1986PLC023443 वेबसाइट : www.aplapollo.com, ईमेल : investors@aplapollo.com

### सदस्यों के लिये 39वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई—वोटिंग जानकारी की सूचना

यह सूचना 29 अगस्त 2024 को दिये गये हमारे पूर्व के सूचनागत संचार की निरंतरता में है, जिसके द्वारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचितत नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 (''सेबी (एलओडीआर) विनियमावली'') जो कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के परिपत्र क्रमशः सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 एवं परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022, 09/2023 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 तथा 25 सितंबर 2023 (एमसीए परिपत्र) तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / ४ दिनांक ५ जनवरी २०२३ तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 जो कि भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये (सेबी परिपत्रों) के साथ पठित है. के अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 को मध्या. 11.00 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') सुविधा के माध्यम से, किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन–देन करने के लिये बुलाई जायेगी। बैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लॉगिन विवरणों के साथ 39वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया, रविवार 1 सितंबर 2024 को पूर्ण हो गयी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (''डीपी'') के साथ, उपरोक्त एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, पंजीकृत हैं, तथा उपरोक्त सचनायें कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध हैं। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की भौतिक प्रति उस / उन सदस्य(यों) को उपलब्ध करायी जायेगी, जो इसके लिये अनुरोध करते हैं। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस–2) और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। रिमोट ई—वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 10.00 बजे) से आरंभ होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कट–ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 ("कट–ऑफ तिथि") को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दिनाँक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश रु. 5.50 प्रति इक्विटी शेयर जिसका नाममात्र मूल्य रु. 2/– प्रत्येक है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित है. यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कर की कटौती के बाद एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अंदर, उन सदस्यों के खाते में जमा किया जायेगा / भेजा जायेगा, जिनके नाम गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या उनके अधिदेशों में दिखाई देते हैं। सदस्यों द्वारा डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए डिपॉजिटरी से प्राप्त होने वाले 19 सितंबर, 2024 के अनुसार लाभकारी स्वामित्व के विवरणों के आधार पर, लाभांश जमा किये जायेंगे 🗸 प्रेषित किये जायेंगे। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि 1. एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान के माध्यम से किए जाएंगे;

## साई कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : जी–25, ग्राउंड फ्लोर, रसविलास सालकॉन डी–1, साकेत जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली –110017 (सीआईएन : L74110DL1995PLC069787), ईमेलः cs@saicapital.co.in,

## फोन : 011—40234681, वेबसाइट : www.saicapital.co.in 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

## प्रिय सदस्यगण,

1. सुचित किया जाता है कि मेसर्स साई कैपिटल लिमिटेड ("कंपनी") की उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("29वीं एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से (आईएसटी) 5 मई, 2020, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर 2023 को क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 10/2022 और 09 / 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी अन्य परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी2 / पी / सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के साथ पढ़े गए। 29वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. 29वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। 29वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.saicapital.co.in); बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com)य और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (www. evoting@nsdl.co.in) पर भी उपलब्ध होगी सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 29वीं एजीएम में शामिल होने और 29वी एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश 29वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ई−वोटिंग सहित 29वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और⁄या लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं, या cs@saicapital.co.in पर ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज भेजकर भविष्य में कोई भी संचार प्राप्त कर सकते हैं।

1) फॉर्म ISR–1 में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है;

2) आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति ; और 3) सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति (जैसे आधार) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट), या फॉर्म ISR–1 में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज।

डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता ⁄ इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अपडेट करें। उपर्युक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनपालन में है।

की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की 45वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है ताकि एजीएम की सुचना में बताए गए व्यवसायों का संचालन किया जा सके। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 2 सितंबर, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(टों) ('डिपॉजिटरी') के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीआईएन नंबर: L32104DL1979PLC009590 पंजीकृत कार्यालय: डी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025

ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाइटः www.pel-india.in,

फोन: 120 2551556/7, फैक्स: 120 2524337

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 45वीं वार्षिक

आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए अनुसार

कारोबार करने के लिए आयोजित की जायेगी। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी सामान्य

परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक

5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/ 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022

दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और नवीनतम 09/2023 दिनांक

25 सितंबर, 2023, और भारतीय प्रतिभुति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र संख्या

SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/ 0063 दिनांक मई 13, 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-

2/P/CIR/2023/4, दिनांक 5 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-

2/P/CIR/2023/167, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023, ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, कंपनियों को आम

स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने

संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम की सविधा कंपनी के सभी पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सिस्टम (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए प्रदान कर रही है। कंपनी ने इलेक्टॉनिक वोटिंग संविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स हरीश पोपली एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और उन्हें कंपनी की वेबसाइट यानी www.pel-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर डाला जाएगा।

अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वह व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर, 2024 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कटऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट कर सकता है। लॉगिन विवरण प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध है।
- वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- जिन सदस्यों ने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए कंपनी/आरटीए या

Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 20, 2024 to September 26, 2024 (both days inclusive).

- For the purpose of receiving dividend, if declared at the AGM, Members who have furnished / updated their bank account with their Depository Participant (DPs) in case shares are hel in physical form, shall be facilitated with electronic transfer of funds by the Company. In case of non-availability or non-updation of bank account details of the shareholders, the Company shall ensure payment of dividend to such member vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For any queries, the members may refer to the frequently asked questions and instavote E-voting manual available at https://www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at 011-49411000or to Ms. Parul Choudhary Company Secretary, 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 a cs@medicamen.com or contact at 011-47589500.

For Medicamen Biotech Limited

Parul Choudhary

**Company Secretary** 

Place : New Delhi Date: September 02, 2024

> एचएफसाएल गिओईएन: L64200HP1987PLC007466 पंजीकृत कार्यालयः ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स. चंबाघाट सोलन –173213 (हिमाचल प्रदेश) वेबसाइट: www.hfcl.com; ईमेल: secretarial@hfcl.com टेलीफोन: 91-1792-230644; फैक्स नंबर: 91-1792-231902

37वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है किः

- (ए) एचएफसीएल लिमिटेड ('कंपनी') की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।
- (बी) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021. 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 और 25 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी क ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीएलआर/पी/2020/79 दिनांक 1 मई 2, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, . सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023, ('परिपत्र'), अन्य बातों के साथ-साथ उन शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 में निर्धारित सभी दस्तावेजों की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण की हार्ड कॉपी भेजने से छूट देता है, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') और परिपत्रों के प्रावधानों| के अनुपालन में, कंपनी की 37वीं एजीएम वीसी कओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं।
- (सी) कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई| वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से सदस्यों को 37वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है।
- (डी) परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं एजीएम की सचना केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
- (ई) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 44 और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को 37वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 37वीं एजीएम के नोटिस में दी जा रही है।
- (एफ) दिनांक 03 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में, दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 17 नवंबर, 2023, 7 मई, 2024 और 10 जुन, 2024 के परिपत्रों के साथ पठित, सेबी ने अनिवार्य from the period area and all and and the period of the per

2. कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए

3. कोई भी व्यक्ति, जो 39" एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, वह 39वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए सी.डी.एस. एल. के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है; तथा

सदस्यगण ध्यान दें कि : क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सी.डी.एस.एल. द्वारा मतदान के लिए पर्वोक्त तिथि और समय के पश्चात अक्षम कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ए.जी. एम. में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगाः ग) इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगीः तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही ए.जी.एम. में रिमोट ई-वोटिंग या मतदान की सुविधा का प्राप्त करने का हकदार होगा।

यदि आपने कंपनी / डीपी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है. तो आप ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं :

कपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने भौतिक धारिता और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रजेख जैसे आवश्यक विवरण

	बोर्ड के आदेशानुसार
	साई कैपिटल लिमिटेड
	हस्ता. /—
	डॉ. नीरज कुमार सिंह
: 02.09.2024	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
ः नई दिल्ली	डीआईएन : 00233396

एसजी फिनसर्व लिमिटेड . पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L64990DL1994PLC057941 दरमाष : 91-11-22373437

वेबसाइट : www.sgfinserve.com, ईमेल : compliance@sgfinserve.com सदस्यों हेतु 30वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

यह हमारे 30 अगस्त 2024 को दिये गये पूर्व के सूचनागत संचार की निरंतरता में है, जिसके द्वारा एसज फिनसर्व लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सुचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमों और सेबी (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमावली 2015 (''सेबी (एलओडीआर) विनियमावली ) के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्मारेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") परिपत्र संख्या 20/2020 विनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 02/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 दिनांक क्रमन : ८ उठील, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी 2021, 5 मई, 2022, 28 विशंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 (एमसीए परिपत्र) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हारा जारी कियो मय परिवच सेबी/एचजो/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनोक 12 मई 2020, परिपत्र संख्य सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी2 / सीआईआए / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या सेवी / एचजो / सीएमढी / सीएमढी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिलांक 13 मई 2022 सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपन्न संख्य संबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी--पीओडी--2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अवदबर 2023 ("सेबी परिपञ्") के साथ पठित, अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार 24 सितंबर 2024 को मध्या, 11.00 बजे, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी") सुविध के माध्यम से, किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, 30वीं एजीएम की सूचना में निधरितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिये बुलायी जायेगी / आयोजित की जायेगी बैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकल कार्यालय होगा।

उन सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपरिधत होने हेतु लॉपिन विवरणों के साथ 30वीं एजीएम की सचना तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट ई--मेल के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया, रविवार 1 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई है, जिनके ई--मेल पते. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेवी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अथवा रजिस्टार तथा श्रेयर टांसफर एजेंट अथवा उनके संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत थे, तथा उपरोक्त सूचना व रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.sgfinserve.com) पर स्टीक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bscindia.com) पर और सेंट्रल डिपॉलिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की देवसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। एकीकृत कार्षिक रिपोर्ट के साथ सुधना की मौतिक प्रति जन सदस्यों को जपलका कराई जाएगी जो इसके लिये अनुरोध करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014, सेबी (एलओदीआर) विनियमावली के विनियम 44, भारतीर कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठक पर जारी सक्तिवीय मानक (एसएस-2) और एमसीए परिपजों वे साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 30 वी एजीएम की सूचना मे निर्धारित सभी प्रस्तायों पर सीक्षीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई--योटिंग (एजीएम से पडले) और ई--वोटिंग (एजीएम के बौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रोंनिक रूप में अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करावी जाती है।

रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 21 सितंबर, 2024 (प्रात काल 10.00 बजे) से आरंभ होगी और सोमवार, 23 सितंबर 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 1 सितंबर, 2024 ("कट--ऑफ तिथि") के जनुसार भौतिक रूप में या अमौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने बोट खाल सकते हैं। इसके उपरांत, वोटिंग के लिए सीडीएसएल डारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निषिकय कर दिया जाएगा।

समी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :

t, एशीएम की सूत्रना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रोंनिक साधमों द्वारा मतदान के माध्यन से किए आएंगे,

 जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उदेश्य त्ते लेना चाहिए

3. कोई भी व्यक्ति, जो 30वीं एजीएम की सुधना के इलेक्ट्रोंनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करत है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार प्रोयर धारण करता है, वह 30वीं एजीएम की सूचना में उत्लिखितानुसार अनुवेशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई--वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह अपना बोट डालने के लिए अपने विश्वमान युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है, तथा

4. सदस्यगण कृपया ध्वान में कि क) वोटिंग के लिए निर्धारित उपयुंक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मीत्रगुल को गिकिन्य कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, खो जिन सदस्यों में एजीएम से पहले रिमोट ई—बोटिंग हारा आपना बोट डाला है वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना बोट डालने का अधिकार नहीं होगा. ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सकिंवा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। और घ) केंवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनसार सदस्यों के रजिस्टर या दिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई--वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार डोगा।

यदि आपने कंपनी 🦯 डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, तो आप ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आप्त करने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं :

डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकत/अपडेट करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के इमेल पते कंपनी/डिपॉजिटर के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है जो कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी के ईमेल पते cs@pel-indla.in या पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

#### बुक क्लोजर

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक 17 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

	बोर्ड के आदेश से
	प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
	हस्ता./-
स्थानः नोएडा	विनीता खुराना
दिनांक: 3 सितंबर, 2024	कंपनी सचिव

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सी-55∕2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-27377373

E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

35वीं वार्षिक आम सभा, कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान, बुक क्लोजर, आदि की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमश दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (''कथित सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 28 सितम्बर, 2024 को 3.00 बजे अप. में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रैंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन विनियमनों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक अधिकृत एजेन्सी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है तथा यह कम्पनी रिमोर्ट ई–वोटिंग के साथ ही साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से 35वीं वार्षिक आम सभा में रखी गई व्यवसाय के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। ऐसे सदस्यों जिन्होने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे 35वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा 35वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी info@sfcilindia.com अथवा rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज भेजने का कार्य 4 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया गया है।

35वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 उन सभी सदस्यों को मेल की जा रही है, जिनके नाम शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं। कंपनी की 35वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका कंपनी की वेबसाइट www.sfclindia.com पर भी उपलब्ध है और इसे वहां से एक्सेस या डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्य कंपनी के ई-मेल आईडी info@sfclindia.com पर किसी अन्य संचार या शिकायत के लिए अपना अनरोध दर्ज कर सकते हैं या कंपनी को इसके पंजीकृत पते पर लिख सकते हैं। 35वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.sfclindia.com और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

ई-वोटिंग अवधि 25 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा 27 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी जिसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी

जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों. वे 35वीं एजीएम के दौरान रिमोट-ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा 35वीं एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिये हों, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन, ऐसे सदस्य फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 35वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 35वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने का तरीका 35वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

किया है कि प्रतिभृति धारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पैन या	या कंपनी को ईमेल द्वारा : investors@aplapollo.com पर या आरटीए को :		
संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमुना हस्ताक्षर अपडेट नहीं किया	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	कृपया फोलियों नवर, होयरधारक का नाम, होयर प्रमाणपत्र की स्क्रेन की गई प्रति (सामने	जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-
है, तो ऐसे प्रतिभूति धारकों को लाभांश राशि का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		भौतिक और पीछे), पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्केन की गई प्रति, आधार कार्ड की रव-सत्यापित	मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर बताते हु
01 अप्रैल, 2024 से उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।	अभौतिक कृपया डामट खात का विवरण (साडाएसएल–16 अको का लामाया आइडा या अभौतिक एनएसडीएल–16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समे.	धारिता स्केन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रलेख जैसे आवश्यक विवरण इंमेल द्वारा कंपनी को : compliance@sgfinserve.com पर या आरटीए को :	21 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से 26 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) वे
ा अप्रेल, 2024 से उपराक्त सभा विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। (जी) समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना परा बैंक विवरण		compliances@strylinerta.com पर उपलब्ध कराये।	बीच info@sfclindia.com पर अनुरोध भेजकर खुद को पहले से पंजीकृत करें। केवल वे सदस्य
	के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रलेख कंपनी को : investors@aplapollo.com पर या		जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यत्त
पंजीकृत/अपडेट करें:		अभौतिक कृपया शीमेंट खाते का विवरण (सीडीएसएस-16 जंकों का लामार्थी आईडी या	करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
• यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं, तो अपेक्षित दस्तावेज जमा करके अपने		मारिता एनएसडीएल-16 अंकों का सीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लाला विवरण की प्रति आधार कार्ज की स्व-सल्यापित स्क्रेन की गई प्रति या पते के प्रमाण	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नह
डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ जिनके पास वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, और	श्री जतिन गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : एफसीएस 5651 : सीओपी संख्या 5236)	के रूप में कोई अन्य प्रतेख कंपनी को : compliance@sglinserve.com पर या आरटीए	किया है, वे ईमेल द्वारा दस्तावेजों की प्रति स्कैन करके info@,sfclindia.com या rta@alankit.con
● यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो आरटीए के साथ फॉर्म आईएसआर-1 को विधिवत		को compliances@strylinerta.com पर उपलब्ध कराये।	पर भेजकर 35वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और/या 35वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लागि
भरकर (İ) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो	मो स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।		विवरण, ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।
नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी,	ते, सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी	श्री जतिन गुप्ता. प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (संदरयता संख्या : एफसीएस 5651 : सीओपी संख्या 5236) को	(क) अपने नाम, फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र।
एमआईसीआर विवरण), (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) कैंसिल्ड चेक लीफ	" की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।	कपनी द्वारा एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से संपूर्ण ईवोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जॉचकर्ता के रूप में नियक्त किया गया है।	(ख) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति, तथा
शामिल होंगे।	मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के अंदर अर्थात् 28 सितंबर, 2024 को या इससे पहले घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित परिणामों को जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट	क रूप में गंगयुक्त (कथा गया है) सदस्यों के बोटिंग अधिकार कट-ऑक तिथि अर्थात मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी की	(ग) कंपनी के साथ पंजीकत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, डाइविंग
(एच) शेयरधारक जो भौतिक मोड में शेयर रखते हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकत	त के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) पर और सीडीएसएल की वेबसाइट	सदस्यां के पांडरंग आधेकार कट-आजे ताथ अश्वात मगलवार, 17 सितंबर, 2024 के अनुसार कपना का प्रदत्त इकिवटी शैयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।	लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।
या अपडेट नहीं किया है, वे कृपया कंपनी के सचिवालयी विभाग को	ין של לוא לאידו לא עפלוצב (www.abiabolio.com) אל אול לושולתים או עפלוצב	बोटिंग का परिणाम, एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के मीतर यानी 26 सितंबर, 2024 को या इससे	डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पत
secretarial@hfcl.com पर या कंपनी के आरटीए को	तो बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः	पडले घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित परिणाम जीवकर्ता की समेकित रिपोर्ट के सध्य कंपनी	अपडेट करें।
admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल लिखकर संपर्क करके इसे पंजीकृत/अपडेट		की वेक्साइट (www.sgfinserve.com) पर और सीठीएसएस की वेक्साइट (www.evotingindia.com)	सदस्यों के मतदान का अधिकार 20 सितम्बर, 2024 की कट–ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विट
कर सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने ई-मेल पते को		पर प्रदर्शित किये जायेंगे और साथ ही इन्हें स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट	शेयर पंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई सदस्य सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेय
पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क/पत्र लिख सकते हैं।	यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने या ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या	www.bscindia.com. जहां कंपनी के शेयर सूचीवढ़ हैं, को भी संप्रेषित किया आयेगा।	अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात 20 सितम्बर, 2024 को शेय
पणाकृत/जपडट करने के लिए एचएफसीएल लिमिटेड के लिए	समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर	यदि आपको एजीएस में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्राप्त या समस्या	आजत करत हे तथा कम्पना का सदस्य जनत हे तथा कट-आफ तिथि अयत् 20 सितम्बर, 2024 का संय धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर
एचएफसाएल लामटड के लिए	े पूछ जान वाल प्रश्न ("एफएक्यू") आर इ—वाटिंग मनुअल देख सकत हे या	है. तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-बोटिंग मैनुझल को www.evotingindia.com	धारित करत ह, व evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भजकर लागिन आइडा तथा पास्वड प्राप्त क सकते हैं।
हस्ता./- स्थानः नई दिल्ली (मनोज बैद)	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर	पर उपलब्ध सहायता अनुभाग में देख सकते हैं या helpdesk.cvoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री मंबर 18002109811 पर कॉल कर सकते हैं।	
	10002109911 48 4010 498 (14)(18)	ालेख समय हूँ या दाल का नगर 18002308901 पर काल कर सकत हूँ। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपने ईमेल या केवाईसी को अपडेट नहीं किये	किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड य
दिनांक: 2 सितंबर, 2024 अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव		हे जन सदस्यों से अनुरोध है कि डियॉजिटरी पार्टिसिपेंट हारा सुझायी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने वीमेंट	उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग
	किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने	रपाते में विवरण पंजीकता / अपडेट करें। भीतिक रूप में शेवर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपनी इंगेल	यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। सदस्यगण
"IMPORTANT"	डीमैट खाते में विवरण दर्ज / अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और	तथा मेवाईसी विवरण अपडेट नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेवर ट्रांसफर	info@sfclindia.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising		एजेंट, मैसर्स स्काईलाइन काइनेशिवल प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित कीर्म आईएसआर-1 में उक्त	स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदा
copy, it is not possible to verify its contents. The Indian		विवरण पंजीकृत / अपकेट करें। सदस्यों को यह सुझाव मी दिया जाता है कि वे निर्धारित फॉर्म एसएच-13	के संचालन के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री हरविन्दर सिंह, हरविन्दर सिंह एंड एसोसिएट्स, कम्पन
Express (P) Limited cannot be held responsible for such		में अपना नामौंकन पूर्ण करें। सदस्यगण, कंपनी की वेबसाइट	सेक्रेट्रीज के प्रॉप्सइटर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मतदान के परिणामों की घोषणा सभा की पूर्णता वे
contents, nor for any loss or damage incurred as a		https://www.sgfinserve.com/communication-to-shareholders पर संबंधित फॉम्स प्राप्त कर	अधिकतम 48 घंटे में किया जायेगी तथा उसकी सूचना स्टॉक एक्सचैंज को दी जायेगी तथा कम्पनी क
result of transactions with companies, associations or		सकते हैं। एसजी फिनसर्व लिमिटेड	वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	एसजा फनसव ।लामटड (पूर्ववर्ती मूंगिया सिक्योरिटीज लिमिटेड)	सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 से शनिवार, 28 सितम्बर, 202
necessary inquiries before sending any monies or	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(पूचवक्ता भूगणा सिक्यास्टाज स्लामटक) हेत् तथा उसकी ओर	(दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
entering into any agreements with advertisers or		हत्ता./-	संप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के लिरं
otherwise acting on an advertisement in any manner		उद्धत नागपाल	ुरा गाँ प्रति स्व
whatsoever.	डीआईएन : 03056481	दिनांक : 2 सितंबर 2024 कंपनी सचिव	स्थानः दिल्ली दीपित जै
1 		स्थान : दिल्ली सव. सं: ए38318	तिथि: 2 सितम्बर, 2024 कम्पनी सचिव
a:			
	www.read	where.com	